



Mr. Nitish Sharma

30 Jun 2004

02:10 AM

Fazilka

Model: Web-MyKundli

Order No: 120514401

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 29-30/06/2004
दिन _____: मंगल-बुधवार
जन्म समय _____: 02:10:00 घंटे
इष्ट _____: 51:28:32 घटी
स्थान _____: Fazilka
राज्य _____: Punjab
देश _____: India

अक्षांश _____: 30:26:00 उत्तर
रेखांश _____: 74:04:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:33:44 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 01:36:16 घंटे
वेलान्तर _____: -00:03:29 घंटे
साम्पातिक काल _____: 20:09:19 घंटे
सूर्योदय _____: 05:34:35 घंटे
सूर्यास्त _____: 19:39:43 घंटे
दिनमान _____: 14:05:09 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: वर्षा
सूर्य के अंश _____: 14:29:48 मिथुन
लग्न के अंश _____: 20:43:15 मेष

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मेष - मंगल
राशि-स्वामी _____: वृश्चिक - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: अनुराधा - 2
नक्षत्र स्वामी _____: शनि
योग _____: साध्य
करण _____: बालव
गण _____: देव
योनि _____: मृग
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: कीटक
वर्ग _____: सर्प
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: नी-नीरज
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कर्क

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1926	आषाढ़	9
पंजाबी	संवत : 2061	आषाढ़	17
बंगाली	सन् : 1411	आषाढ़	16
तमिल	संवत : 2061	आनी	16
केरल	कोल्लम : 1179	मिथुनम	16
नेपाली	संवत : 2061	आषाढ़	17
चैत्रादि	संवत : 2061	आषाढ़	शुक्ल 13
कार्तिकादि	संवत : 2061	आषाढ़	शुक्ल 13

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 11
तिथि समाप्ति काल _____ : 06:48:59
जन्म तिथि _____ : 12
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : विशाखा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 19:17:19 घंटे
जन्म योग _____ : अनुराधा
सूर्योदय कालीन योग _____ : सिद्ध
योग समाप्ति काल _____ : 07:39:30 घंटे
जन्म योग _____ : साध्य
सूर्योदय कालीन करण _____ : विष्टि
करण समाप्ति काल _____ : 06:48:59 घंटे
जन्म करण _____ : बालव
भयात _____ : 17:11:43
भभोग _____ : 53:44:23
भोग्य दशा काल _____ : शनि 12 वर्ष 11 मा 16 दि

घात चक्र

मास _____ : आश्विन
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : रेवती
योग _____ : व्यतिपात
करण _____ : गर
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : गरुड़
लग्न _____ : वृश्चिक
सूर्य _____ : मकर
चन्द्र _____ : वृष
मंगल _____ : कुम्भ
बुध _____ : वृश्चिक
गुरु _____ : मीन
शुक्र _____ : मेष
शनि _____ : कर्क
राहु _____ : वृष

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj


New Delhi-110070

9878463039, 9779763039


vijayvastu39@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

	रा ल	शु	श सू बु
			मं
			गु
	चं	के	

लग्न कुंडली

श बु	शु	रा ल
मं		
गु		के
		चं

विंशोत्तरी
शनि 12वर्ष 11मा 16दि
शनि

30/06/2004

17/06/2118

शनि	16/06/2017
बुध	16/06/2034
केतु	16/06/2041
शुक्र	16/06/2061
सूर्य	16/06/2067
चन्द्र	16/06/2077
मंगल	16/06/2084
राहु	17/06/2102
गुरु	17/06/2118

योगिनी
भ्रामरी 2वर्ष 8मा 22दि
संकटा

23/03/2025

23/03/2033

संकटा	01/01/2027
मंगला	23/03/2027
पिंगला	02/09/2027
धान्या	02/05/2028
भ्रामरी	23/03/2029
भद्रिका	03/05/2030
उल्का	02/09/2031
सिद्धा	23/03/2033

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मेष	20:43:15	448:01:17	भरणी	3	2	मंगल	शुक्र	गुरु	---
सूर्य			मिथु	14:29:48	00:57:11	आर्द्रा	3	6	बुध	राहु	केतु	सम राशि
चंद्र			वृश्चि	07:34:14	14:50:09	अनुराधा	2	17	मंगल	शनि	केतु	नीच राशि
मंगल			कर्क	09:51:26	00:37:47	पुष्य	2	8	चंद्र	शनि	शुक्र	नीच राशि
बुध			मिथु	27:07:49	01:57:39	पुनर्वसु	3	7	बुध	गुरु	शुक्र	स्वराशि
गुरु			सिंह	19:16:35	00:08:30	पूर्वाषाढा	2	11	सूर्य	शुक्र	राहु	मित्र राशि
शुक्र	व		वृष	15:42:32	00:00:15	रोहिणी	2	4	शुक्र	चंद्र	शनि	स्वराशि
शनि		अ	मिथु	21:46:11	00:07:45	पुनर्वसु	1	7	बुध	गुरु	गुरु	मित्र राशि
राहु	व		मेष	15:41:18	00:02:59	भरणी	1	2	मंगल	शुक्र	सूर्य	शत्रु राशि
केतु	व		तुला	15:41:18	00:02:59	स्वाति	3	15	शुक्र	राहु	शुक्र	सम राशि
हर्ष	व		कुंभ	12:43:58	00:00:54	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	बुध	---
नेप	व		मक	21:00:16	00:01:13	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	शुक्र	---
प्लूटो	व		वृश्चि	26:30:42	00:01:29	ज्येष्ठा	3	18	मंगल	बुध	गुरु	---
दशम भाव			मक	06:13:23	--	उत्तराषाढा	--	21	शनि	सूर्य	बुध	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:55:01


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मेष 03:18:16	मेष 20:43:15
2	वृष 03:18:16	वृष 15:53:18
3	वृष 28:28:19	मिथुन 11:03:20
4	मिथुन 23:38:22	कर्क 06:13:23
5	कर्क 23:38:22	सिंह 11:03:20
6	सिंह 28:28:19	कन्या 15:53:18
7	तुला 03:18:16	तुला 20:43:15
8	वृश्चिक 03:18:16	वृश्चिक 15:53:18
9	वृश्चिक 28:28:19	धनु 11:03:20
10	धनु 23:38:22	मकर 06:13:23
11	मकर 23:38:22	कुम्भ 11:03:20
12	कुम्भ 28:28:19	मीन 15:53:18


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मेष	20:43:15
2	वृष	19:09:44
3	मिथुन	12:42:03
4	कर्क	06:13:23
5	सिंह	03:46:29
6	कन्या	09:08:18
7	तुला	20:43:15
8	वृश्चिक	19:09:44
9	धनु	12:42:03
10	मकर	06:13:23
11	कुम्भ	03:46:29
12	मीन	09:08:18


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद
उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु
पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शनि 12 वर्ष 11 मास 16 दिन

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष
30/06/2004	16/06/2017	16/06/2034	16/06/2041	16/06/2061
16/06/2017	16/06/2034	16/06/2041	16/06/2061	16/06/2067
00/00/0000	बुध 13/11/2019	केतु 12/11/2034	शुक्र 15/10/2044	सूर्य 04/10/2061
30/06/2004	केतु 09/11/2020	शुक्र 12/01/2036	सूर्य 16/10/2045	चंद्र 04/04/2062
केतु 07/04/2005	शुक्र 10/09/2023	सूर्य 19/05/2036	चंद्र 16/06/2047	मंगल 10/08/2062
शुक्र 07/06/2008	सूर्य 16/07/2024	चंद्र 18/12/2036	मंगल 16/08/2048	राहु 05/07/2063
सूर्य 20/05/2009	चंद्र 16/12/2025	मंगल 16/05/2037	राहु 16/08/2051	गुरु 22/04/2064
चंद्र 19/12/2010	मंगल 13/12/2026	राहु 04/06/2038	गुरु 16/04/2054	शनि 04/04/2065
मंगल 28/01/2012	राहु 01/07/2029	गुरु 11/05/2039	शनि 16/06/2057	बुध 08/02/2066
राहु 04/12/2014	गुरु 07/10/2031	शनि 19/06/2040	बुध 16/04/2060	केतु 16/06/2066
गुरु 16/06/2017	शनि 16/06/2034	बुध 16/06/2041	केतु 16/06/2061	शुक्र 16/06/2067

चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष
16/06/2067	16/06/2077	16/06/2084	17/06/2102	17/06/2118
16/06/2077	16/06/2084	17/06/2102	17/06/2118	00/00/0000
चंद्र 16/04/2068	मंगल 12/11/2077	राहु 27/02/2087	गुरु 04/08/2104	शनि 20/06/2121
मंगल 15/11/2068	राहु 01/12/2078	गुरु 22/07/2089	शनि 16/02/2107	बुध 28/02/2124
राहु 17/05/2070	गुरु 06/11/2079	शनि 28/05/2092	बुध 24/05/2109	केतु 01/07/2124
गुरु 16/09/2071	शनि 15/12/2080	बुध 16/12/2094	केतु 29/04/2110	00/00/0000
शनि 16/04/2073	बुध 13/12/2081	केतु 03/01/2096	शुक्र 28/12/2112	00/00/0000
बुध 15/09/2074	केतु 11/05/2082	शुक्र 03/01/2099	सूर्य 17/10/2113	00/00/0000
केतु 17/04/2075	शुक्र 11/07/2083	सूर्य 28/11/2099	चंद्र 16/02/2115	00/00/0000
शुक्र 15/12/2076	सूर्य 16/11/2083	चंद्र 30/05/2101	मंगल 23/01/2116	00/00/0000
सूर्य 16/06/2077	चंद्र 16/06/2084	मंगल 17/06/2102	राहु 17/06/2118	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशों के आधार पर दी गई है। भयात भोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शनि 12 वर्ष 11 मा 1 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - चंद्र 16/07/2024 16/12/2025	बुध - मंगल 16/12/2025 13/12/2026	बुध - राहु 13/12/2026 01/07/2029	बुध - गुरु 01/07/2029 07/10/2031	बुध - शनि 07/10/2031 16/06/2034
चंद्र 28/08/2024 मंगल 27/09/2024 राहु 14/12/2024 गुरु 21/02/2025 शनि 14/05/2025 बुध 26/07/2025 केतु 25/08/2025 शुक्र 20/11/2025 सूर्य 16/12/2025	मंगल 06/01/2026 राहु 01/03/2026 गुरु 18/04/2026 शनि 15/06/2026 बुध 05/08/2026 केतु 26/08/2026 शुक्र 25/10/2026 सूर्य 13/11/2026 चंद्र 13/12/2026	राहु 01/05/2027 गुरु 03/09/2027 शनि 28/01/2028 बुध 08/06/2028 केतु 01/08/2028 शुक्र 04/01/2029 सूर्य 19/02/2029 चंद्र 08/05/2029 मंगल 01/07/2029	गुरु 20/10/2029 शनि 28/02/2030 बुध 25/06/2030 केतु 12/08/2030 शुक्र 28/12/2030 सूर्य 08/02/2031 चंद्र 18/04/2031 मंगल 05/06/2031 राहु 07/10/2031	शनि 11/03/2032 बुध 28/07/2032 केतु 23/09/2032 शुक्र 06/03/2033 सूर्य 24/04/2033 चंद्र 15/07/2033 मंगल 11/09/2033 राहु 05/02/2034 गुरु 16/06/2034
केतु - केतु 16/06/2034 12/11/2034	केतु - शुक्र 12/11/2034 12/01/2036	केतु - सूर्य 12/01/2036 19/05/2036	केतु - चंद्र 19/05/2036 18/12/2036	केतु - मंगल 18/12/2036 16/05/2037
केतु 25/06/2034 शुक्र 20/07/2034 सूर्य 27/07/2034 चंद्र 09/08/2034 मंगल 17/08/2034 राहु 09/09/2034 गुरु 29/09/2034 शनि 22/10/2034 बुध 12/11/2034	शुक्र 22/01/2035 सूर्य 13/02/2035 चंद्र 20/03/2035 मंगल 14/04/2035 राहु 17/06/2035 गुरु 13/08/2035 शनि 19/10/2035 बुध 19/12/2035 केतु 12/01/2036	सूर्य 19/01/2036 चंद्र 29/01/2036 मंगल 06/02/2036 राहु 25/02/2036 गुरु 13/03/2036 शनि 02/04/2036 बुध 21/04/2036 केतु 28/04/2036 शुक्र 19/05/2036	चंद्र 06/06/2036 मंगल 18/06/2036 राहु 20/07/2036 गुरु 18/08/2036 शनि 21/09/2036 बुध 21/10/2036 केतु 02/11/2036 शुक्र 08/12/2036 सूर्य 18/12/2036	मंगल 27/12/2036 राहु 18/01/2037 गुरु 07/02/2037 शनि 03/03/2037 बुध 24/03/2037 केतु 02/04/2037 शुक्र 27/04/2037 सूर्य 04/05/2037 चंद्र 16/05/2037
केतु - राहु 16/05/2037 04/06/2038	केतु - गुरु 04/06/2038 11/05/2039	केतु - शनि 11/05/2039 19/06/2040	केतु - बुध 19/06/2040 16/06/2041	शुक्र - शुक्र 16/06/2041 15/10/2044
राहु 13/07/2037 गुरु 02/09/2037 शनि 02/11/2037 बुध 26/12/2037 केतु 18/01/2038 शुक्र 23/03/2038 सूर्य 11/04/2038 चंद्र 13/05/2038 मंगल 04/06/2038	गुरु 19/07/2038 शनि 11/09/2038 बुध 30/10/2038 केतु 19/11/2038 शुक्र 14/01/2039 सूर्य 31/01/2039 चंद्र 01/03/2039 मंगल 21/03/2039 राहु 11/05/2039	शनि 14/07/2039 बुध 09/09/2039 केतु 03/10/2039 शुक्र 09/12/2039 सूर्य 30/12/2039 चंद्र 01/02/2040 मंगल 25/02/2040 राहु 26/04/2040 गुरु 19/06/2040	बुध 09/08/2040 केतु 30/08/2040 शुक्र 30/10/2040 सूर्य 17/11/2040 चंद्र 17/12/2040 मंगल 07/01/2041 राहु 02/03/2041 गुरु 20/04/2041 शनि 16/06/2041	शुक्र 05/01/2042 सूर्य 07/03/2042 चंद्र 16/06/2042 मंगल 26/08/2042 राहु 25/02/2043 गुरु 06/08/2043 शनि 15/02/2044 बुध 05/08/2044 केतु 15/10/2044

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	3
भाग्यांक	6
मित्र अंक	3, 5, 7, 9, 6
शत्रु अंक	1, 4, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	गुरु, रवि, मंगल
शुभ ग्रह	गुरु, सूर्य, मंगल
मित्र राशि	कर्क, सिंह
मित्र लग्न	कर्क, धनु, कुम्भ
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	पुखराज
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039


vijayvastu39@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	83%	सन्तति सुख, भाग्योदय, कम खर्च
माणिक्य	सूर्य	73%	पराक्रम, सन्तति सुख
गोमेद	राहु	73%	स्वास्थ्य, सुख
मूंगा	मंगल	64%	सुख, स्वास्थ्य, दुर्घटना से बचाव
नीलम	शनि	61%	पराक्रम, व्यावसायिक उन्नति, धनार्जन
लहसुनिया	केतु	61%	दम्पति, धन
हीरा	शुक्र	51%	धन, दम्पति
पन्ना	बुध	31%	पराक्रम हानि, शत्रु व रोग
मोती	चंद्र	12%	दुर्घटना, ग्रह कलेश



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शनि	16/06/2017	61%	0%	52%	43%	83%	58%	73%	80%	47%
बुध	16/06/2034	80%	0%	64%	53%	83%	58%	61%	73%	61%
केतु	16/06/2041	61%	0%	70%	31%	83%	58%	47%	61%	73%
शुक्र	16/06/2061	61%	0%	64%	43%	83%	64%	67%	80%	67%
सूर्य	16/06/2067	86%	25%	70%	31%	89%	28%	47%	61%	47%
चंद्र	16/06/2077	80%	38%	64%	43%	83%	51%	61%	61%	47%
मंगल	16/06/2084	80%	25%	77%	6%	89%	51%	61%	61%	67%
राहु	17/06/2102	61%	0%	52%	31%	83%	58%	67%	86%	47%
गुरु	17/06/2118	80%	25%	70%	6%	95%	28%	61%	73%	61%

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	30/06/2004-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025	-----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	16/01/2076-11/07/2076 11/10/2076-15/01/2079	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	12/04/2081-03/08/2081 07/01/2082-20/03/2084	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

फल

शुभ
शुभ
अशुभ
शुभ
शुभ

क्षेत्र

पराक्रम
दम्पति
दुर्घटना
भाग्योदय
धनार्जन

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे।

स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम्।।

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष है। इसके प्रभाव से जीवन में आपको भौतिक सुख संसाधनों तथा अन्य जायदाद आदि की प्राप्ति परिश्रम से होगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ तथा प्रसन्न रहेंगे परन्तु स्वभाव में यदा कदा उग्रता का भाव उत्पन्न हो सकता है लेकिन दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब हो सकता है तथा वैवाहिक वार्ताओं में भी व्यवधान आ सकते हैं लेकिन अंततोगत्वा इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपकी पत्नी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा आपसी संबंधों में कुछेक क्षणों को छोड़कर मधुरता बनी रहेगी।

चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति के फलस्वरूप आपको सांसारिक सुख संसाधन परिश्रम पूर्वक प्राप्त होंगे साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि के प्रभाव से पत्नी के स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा आप दाम्पत्य जीवन का सुख पूर्वक उपभोग करने में समर्थ रहेंगे। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप आप परिश्रम एवं पराक्रम से ही उच्च पद तथा सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करेंगे। एकादश भाव पर दृष्टि के प्रभाव से आपके आय साधनों में सामान्यतया वृद्धि होगी। यदा कदा न्यूनता का भाव भी रहेगा लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं रहेगा तथा आपका सामान्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा।

मंगल के शुभ फलों में अधिक अनुकूलता के लिए आपको किसी मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए। जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो जाए। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इसके भंग होने से आप सर्वत्र सफलता के मार्ग पर

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

अग्रसर होंगे तथा सांसारिक सुख संसाधन ऐश्वर्य तथा वैभव की इच्छित प्राप्ति होगी तथा दाम्पत्य संबंधों में भी मधुरता का भाव विद्यमान रहेगा।



Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4. शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में अनन्त नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। इसके कारण जातक को व्यक्तित्व निर्माण एवं आगे बढ़ने में आंशिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है। कभी-कभी विरक्ति पैदा होती है। गृहस्थ जीवन कुछ अस्तव्यस्त रहता है। न्यायालय से थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी-कभी दुःखमय बन जाता है। जीवन में समय-समय पर आंशिक रूप में बाधाएँ आती हैं। परन्तु कालान्तर में सभी विघ्न-बाधाएँ दूर होती चली जाती हैं। जीवन में अनेक बार अपयश मिलने का भय बना रहता है। अपने रिश्तेदार नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करते हैं, परन्तु उसमें वे सफल नहीं होते। जातक बार-बार अपने कार्य को बदलता है। परिणामस्वरूप आंशिक रूप में कभी क्षति उठानी पड़ती है। खासकर साहूकारी के व्यवसाय में नुकसान उठता है। लेकिन जातक के जीवन में एक चमत्कारिक समय भी आता है। और समय-समय पर शुभ कार्य सम्पादित होते रहते हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ा नाजुक होती है। इस योग के कारण जातक थोड़ा बहुत पराक्रमहीन, आलसी एवं नीचकर्म करने में तत्पर हो जाता है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर,

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरांत पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियाँ अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ।।

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुंडली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें । रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं ।

आपकी कुंडली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें । विद्यालय में पुस्तकों का दान करें ।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039


vijayvastu39@gmail.com

कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

ग्रह फल

सूर्य

तृतीय भाव में सूर्य हो तो जातक, सरकार से सम्मान प्राप्त, कवि, भाई और सम्बन्धियों के कारण दुःखी, पराकमी, प्रतापशाली, लब्धप्रतिष्ठ एवं बलवान् होता है।

मिथुन राशि में रवि हो तो जातक धनवान्, ज्योतिषी, इतिहास प्रेमी उदार, विवेकी, विद्वान्, बुद्धिमान, मधुरभाषी, नम्र एवं प्रेमी होता है।

आपके जन्म काल में सूर्य तृतीय भाव में स्थित है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा यदा कदा ही शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। साथ ही उनकी आयु भी उत्तम रहेगी। पिता से आप जीवन में समस्त शुभकार्यों में सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ ही आप में शक्ति, साहस एवं पराक्रम बढ़ाने के लिए वे नित्य यत्नशील रहेंगे। धन सम्पत्ति से वे सर्वदा युक्त रहेंगे तथा अवसरानुकूल आपको उचित उपदेश तथा निर्देश भी देते रहेंगे।

आप भी उनके प्रति हार्दिक स्नेह एवं सम्मान का भाव रखेंगे तथा प्रायः उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध भी कुछ मतभेदों को छोड़कर सामान्य रूप से मधुर ही रहेंगे। उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा जीवन में उनको पूर्ण आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग प्रदान करते रहेंगे जिससे उन्हें कोई दुःख या कष्ट न हो। इस प्रकार आप एक दूसरे के लिए सामान्यतया शुभ ही समझे जाएंगे।

चन्द्र

आठवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक कामी, व्यापार से लाभवाला, विकास्त प्रमेहमरोगी, वाचाल, स्वाभिमानी, बन्धन से दुखी होने वाला एवं ईर्ष्यालु होता है।

वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो जातक अपने माता-पिता, भाइयों आदि से अलग रहने वाला, नास्तिक, लोभी, बन्धुहीन, परस्त्रीरत, झगड़ालू, स्पष्ट वक्ता, बुरे विचार रखने वाले, दुःखी, हठी, अनैतिक विचारों वाला एवं धनी होता है।

आपके जन्मकाल में चन्द्रमा की स्थिति अष्टम भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके प्रति उनके मन में सामान्य प्रेम विद्यमान रहेगा एवं जीवन में समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको सहयोग तथा प्रोत्साहन प्रदान करती रहेंगी। आपके स्वास्थ्य के प्रति वे चिन्तनशील रहेगी एवं सर्वदा आर्थिक तथा अन्य सहायता करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त उनसे आप कभी कभी विशेष धनार्जन करने में भी सफल हो सकेंगे।

आप का भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रहेगा एवं उनकी सेवा तथा आज्ञा का पालन करने के लिए प्रायः तत्पर ही रहेंगे। आपके परस्पर संबंध अच्छे रहेंगे परन्तु यदा कदा आपसी मतभेदों के कारण इनमें कटुता भी आयेगी लेकिन कुछ समयोपरान्त स्वतः सब कुछ

सामान्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपके परस्पर संबंध भी सामान्य ही रहेंगे।

मंगल

चतुर्थभाव में मंगल हो तो जातक सन्ततिवान्, मातृसुखहीन, वाहनसुख, प्रवासी, अग्निभययुक्त, अल्पमृत्यु चा अपमृत्यु प्राप्त करने वाला, कृषक, बन्धुविरोधी एवं लाभ युक्त होता है।

कर्क राशि में मंगल हो तो जातक कुशाबुद्धिवाला, धनवान्, बदमाश, कुशलचिकित्सक, या सर्जन, चंचलमनवाला सुखाभिलाषी, कृषक, रोगी एवं दुष्ट होता है।

आपके जन्म समय में मंगल तृतीय भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों का आपको मध्यम सुख प्राप्त होगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा परन्तु यदा कदा शरीर से वे अस्वस्थता की अनुभूति करेंगे। धन सम्पत्ति का उनके पास अभाव नहीं रहेगा तथा जीवन के समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही सुख दुःख में भी वे आपको आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आजीविका एवं व्यापार संबंधी कार्यों में भी आपको उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

आपके हृदय में भी उनके प्रति स्नेह का भाव विद्यमान रहेगा। आप के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के उत्पन्न होने पर इसमें कटुता का भी वातावरण बनेगा लेकिन यह अस्थायी रहेगा। साथ ही सुख दुःख एवं समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में आप उन्हें अपना आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार मिलजुल कर आप अपनी अधिकांश समस्याओं का समाधान करके प्रसन्नानुभूति प्राप्त करेंगे।

बुध

तृतीयभाव में बुध हो तो जातक सद्गुणी, कार्यदक्ष, परिश्रमी, मित्रप्रेमी, भीरु, धर्मात्मा, यात्राशील, व्यवसायी, चंचल, अल्पभ्रातृवान्, विलासी, सन्ततिवान्, कवि, सम्पादक, सामुद्रिकशास्त्र का ज्ञाता एवं लेखक होता है।

मिथुन राशि में बुध हो तो जातक मधुरभाषी, शास्त्रज्ञ, लब्धप्रतिष्ठ, वक्ता, लेखक, अल्पसन्ततिवाला, विवेकी, सदाचारी, खोज के काम में चतुर, दीर्घायु, यात्रा का शौकीन, संगीत में रुचि एवं हास परिहास करने वाला होता है।

गुरु

पंचमभाव में गुरु हो तो जातक नीतिविशारद, सन्ततिवान्, सट्टे से धन प्राप्त करने वाला, कुलश्रेष्ठ, लोकप्रिय, कुटुम्ब में सबसे ऊँचा स्थान, ज्योतिषी एवं आस्तिक होता है।

सिंह राशि में गुरु हो तो जातक धार्मिक, प्रेमी, कार्यकुशल, सभाचतुर शत्रुजित्, आकर्षकव्यक्तित्व, उच्चाकांक्षी, सक्रिय, सुखी, कुशाबुद्धि साहित्य की ओर झुकाव, लेखक एवं उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

शुक्र

द्वितीयभाव में शुक्र हो तो जातक भाग्यवान्, साहसी, समयज्ञ, मिष्टान्नभोजी, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, दीर्घजीवी, कवि, कुटुम्बयुक्त, सुखी एवं धनवान् होता है।

वृष राशि में शुक्र हो तो जातक सुन्दर, ऐश्वर्यवान्, दानी, सदाचारी, सात्त्विक, परोपकारी, अनेक शास्त्रज्ञ, दृढ़, स्वतन्त्रकामुक, शौकीन तबीयत, संगीत-नृत्य तथा अन्य कलाओं में रुचि एवं आलसी होता है।

शनि

तृतीय भाव में शनि हो तो जातक नीरोगी, विद्वान् योगी, मल्ल, शीघ्रकार्यकर्ता, सभाचतुर, चंचल, भाग्यवान्, शत्रुहन्ता, एवं विवेकी होता है।

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक दुराचारी, कपटी, कामी, पाखण्डी, निर्धन, दुःखी एवं संकीर्ण मन वाला होता है।

राहु

लग्न (प्रथम) में राहु हो तो जातक कामी, दुर्बल, मनस्वी, अल्पसन्तति युक्त, राजद्वेषी, नीचकर्मरत दुष्ट, स्तकरोगी, स्वार्थी एवं बात-बात पर सन्देह करने वाला होता है।

मेष राशि में राहु हो तो जातक-पराक्रमहीन, आलसी, अविवेकी एवं अनैतिक चरित्र होता है।

केतु

सप्तम भाव में केतु हो तो जातक मतिमन्द, मूर्ख, दुःखद विवाहित जीवन, पति-पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद, शत्रुभीरु एवं सुखहीन होता है।

तुला राशि में केतु हो तो जातक कुष्ठरोगी, दुःखी, क्रोधी एवं कामी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- बुध
(16/06/2017 - 16/06/2034)**

बुध की महादशा 16/06/2017 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 16/06/2034 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध तृतीय भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। उस दशा के दौरान कुछ मामूली वाधाओं को छोड़ जीविका में प्रगति तथा धन की प्राप्ति हुई होगी। बुध की वर्तमान दशा के दौरान आपकी छोटी यात्राएं होंगी तथा पराक्रम और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपमें शक्ति तथा स्फूर्ति प्रचुर मात्रा में होगी। फिर भी आप सतर्क होंगे और जरूरत से अधिक परिश्रम नहीं करेंगे। गले की समस्या, ब्रोंकाइटिस, स्नायविक समस्या तथा गठिया आदि बीमारियों को छोड़कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किन्तु, आवश्यक उपाय कर इन व्याधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

आप अपने ही प्रयासों से धनोपार्जन करेंगे। आपको आर्थिक सफलता मिलेगी और आपको किसी लाभदायक सरकारी पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने शत्रुओं तथा विरोधियों से लाभ मिलेगा और मुकदमों में विजय मिलेगी। आपको संचार-माध्यमों के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जीविका-व्यवसाय के लिये लेखा, पत्रकारिता, सेल्समैन, शिक्षण, ट्रेवल एजेंट, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, वैमानिकी, चिकित्सक तथा सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर, इस्तनिर्भित आदि वस्तुओं का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सफलता तथा सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आप अपनी बौद्धिक उपलब्धि, समस्या-समाधान की क्षमता तथा कठिन परिश्रम के कारण पुरस्कृत किए जाएंगे। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, आय और लाभ में वृद्धि होगी तथा यश और ख्याति की प्राप्ति होगी। कार्यों में सफलता और विरोधियों पर विजय के लिए यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

चन्द्र की अन्तर्दशा में आपको जीवन का सुख मिलेगा। इस दशा के दौरान आपको वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। बुध की अन्तर्दशा में आप अपना पुराना वाहन बेच सकते हैं। बुध की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा तथा गुरु की अन्तर्दशा में लम्बी यात्रा से लाभ होगा। मंगल की अन्तर्दशा में जमीन-जायदाद के मामले लाभदायक होंगे जबकि बुध की अन्तर्दशा के दौरान कुछ मामूली नुकसान हो सकता है।

शिक्षा :

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा अति उत्तम होगी। आप उस दशा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस दशा के दौरान शिक्षा के माध्यम से आपको कुछ आर्थिक लाभ होगा। गणित, विज्ञान, विधि, ललितकला, संचार-माध्यम, पत्रकारिता, लेखन तथा साहित्य में आपकी रुचि हो सकती है। आप हस्तकला तथा वाक्पटुता में कुशल होंगे। आप तेज, कूटनीतिक, बहुमुखी एवं विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं।

परिवार :

आपके बच्चों के लिये समय समृद्धि-दायक रहेगा और उनके लाभ तथा सम्पत्ति में वृद्धि होगी। आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवन साथी की यात्रा होगी, विदेशी स्रोतों से लाभ मिलेगा तथा उनकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी। आपका आपके जीवन साथी के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माता की कुछ यात्रा, व्यय तथा स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या होगी जबकि आपके पिता को व्यापार में तथा साझेदार से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई-बहनों को यश और ख्याति मिलेगी, उनकी शिक्षा उत्तम होगी और जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी जबकि बड़ों को सट्टे में सफलता तथा लाभ मिलेगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपके मित्रों की संख्या विशाल होगी। आप सामाजिक व लोकप्रिय होंगे।

अन्तर्दशा :

बुध की दशा में बुध की अन्तर्दशा में आपको संचार-माध्यम से लाभ और भाइयों से सुख मिलेगा जबकि केतु के कारण कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप व्यापार में लाभ और विवाद होगा जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के कारण सट्टे से लाभ तथा बच्चों से सुख मिल सकता है। चन्द्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आराम मिलेगा जबकि मंगल की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। राहु की अन्तर्दशा कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है जबकि बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप यात्रा होगी और समृद्धि की प्राप्ति होगी। शनि की अन्तर्दशा के दौरान जीवन-वृत्ति में उन्नति होगी तथा लाभ मिलेगा।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

**अंतर्दशा :- बुध - चन्द्र
(16/07/2024 - 16/12/2025)**

आपकी बुध की महादशा 16/06/2017 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष 5 मास होगी। आपके लिए यह 16/07/2024 को प्रारंभ होकर 16/12/2025 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, सरकारी कृपा और चेहरे की चमक का कारक है।

इस अवधि में अचानक अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। आप की अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल है। पराविद्या आदि में रुचि हो सकती है। आपकी माता सौभाग्यशाली रहेंगी। साझेदारों से लाभ हो सकता है। धनागम उत्तम होगा। आपकी मधुरवाणी से सब प्रभावित होंगे, लोकप्रियता और समाज में सफलता प्राप्त होंगी। सब सुख-सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा।

आपके जीवनसाथी को सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे, धनार्जन होगा, घरेलू जीवन सुखी रहेगा। आपके पिता के खर्चे बढ़ेंगे; यात्राएं होंगी। माता को निवेश से लाभ होगा, कला में रुचि होगी।

आपके भाई-बहनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मातहतों से संबंध उत्तम होंगे, मामापक्ष से लाभ होगा, शिक्षा उत्तम रहेगी, सफल और प्रसिद्ध बनेंगे। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी; भविष्य के लिए नींव मजबूत होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं; स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो लघु यात्राएं होंगी; संचार साधनों से लाभ होगा। परामर्शदाताओं की आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों को धन का लाभ होगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्रेयस्कर होगा। श्वसनतंत्र के रोग और गठिया आदि से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए भैरव मंदिर में दूध अर्पित करें।

**अंतर्दशा :- बुध - मंगल
(16/12/2025 - 13/12/2026)**

आपके लिए बुध की महादशा 16/06/2017 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन रहेगी। यह 16/12/2025 को प्रारंभ होकर 13/12/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपको वांछित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा उत्तम होगी। अचल संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। उत्साह और साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्पर्धियों पर विजय होगी; उच्चपद मिल सकता है। विवाहित जीवन में तनाव हो सकता है पर प्रयास करने पर बचाव हो सकता है। व्यापार में विस्तार और साझेदारी से लाभ संभव हैं। व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है। विदेश में सफलता मिल सकती है।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे, भाग्यशाली होंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; उन्हें विरासत में संपत्ति मिल सकती है। माता के आत्म-विश्वास में वृद्धि हो सकती है; सफलता, सौभाग्य और उत्तम कार्यक्षमता का योग है।

आपके भाई-बहनों के लिए लाभ, धन, प्रसिद्धि, उत्तम शिक्षा और स्पर्धियों पर विजय का संकेत है। आपकी संतान की सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। अगर वे सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है, खर्चें बढ़ सकते हैं मगर अध्यात्म में रुचि होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी; सफलता और प्रसिद्धि मिलेंगी। परामर्शदाताओं को साझेदारी से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। छाती और हृदय के रोगों से बचाव करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए मंगल के मंत्र का जाप करें।

ॐ अं अंगारकाय नमः

अंतर्दशा :- बुध - राहु
(13/12/2026 - 01/07/2029)

आपके लिए बुध की महादशा 16/06/2017 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा राहु की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी। आपके लिए यह 13/12/2026 को प्रारंभ होकर 01/07/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक समृद्धि और अचानक, अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है।

इस अवधि में आप में आत्मविश्वास रहेगा और सब बाधाओं को पार कर लेंगे। धन का लाभ होगा, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। उच्च पद और सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। समाज में सफलता मिलेगी, साझेदारी से लाभ होगा, घरेलू सुख रहेगा। व्यापार में अचानक प्रगति होगी। शत्रुओं पर विजय होगी। विवाह हो सकता है। विदेश यात्रा संभव है। भौतिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

आपके जीवनसाथी की व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है। आपके पिता को निवेश से लाभ हो सकता है। माता सामाजिक, व्यापारिक और कार्यसंबंधी गतिविधियों में प्रगति करेंगी। आपके भाई-बहनों के लिए धन लाभ, प्रभावशाली मित्र, उत्साह, सौभाग्य और कार्य में अच्छी आय का संकेत है।

आपकी संतान की यात्रा होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धन, सुख के साधन प्राप्त करेंगे, यात्रा हो सकती है। अगर आप सेवारत हैं तो अचानक लाभ होगा, यात्रा होगी। परामर्शदाता निवेश के लिए धन खर्च करेंगे; धनलाभ होगा। व्यापारी धन कमाएंगे, यात्राएं होंगी, व्यस्तता बढ़ेगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शरीर के ऊपरी भाग का खास तौर पर ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए शनिवार के दिन भैरव रूप में शिवजी की उपासना करें।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com

**अंतर्दशा :- बुध - गुरु
(01/07/2029 - 07/10/2031)**

आपके लिए बुध की महादशा 16/06/2017 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में आठवीं अंतर्दशा बृहस्पति की है, जिसकी अवधि 2 वर्ष 3 मास 6 दिन है। आपके लिए यह 01/07/2029 को प्रारंभ होकर 07/10/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति बुद्धि, धन, समृद्धि और उच्चकोटि के ज्ञान का कारक है।

इस अवधि में आप ज्ञानार्जन करेंगे, परीक्षा में सफलता मिलेगी। वरिष्ठजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। सम्मान में वृद्धि होगी। सौभाग्य और समृद्धि का योग है। आपके प्रभावशाली मित्र होंगे; कला में रुचि होगी। व्यापार और सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है। बोनस, सेवानिवृत्ति धन आदि से अचानक लाभ हो सकता है। पराविद्या, तंत्र-मंत्र आदि में रुचि हो सकती है। आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धनी बनेंगे।

आपके जीवनसाथी धनी बनेंगे। आपके पिता का मानसिक विकास होगा; सुअवसर मिलेंगे। माता धनी बनेंगी। आपके भाई-बहनों के लिए मानसिक विकास, साझेदारी में लाभ, व्यापार में लाभ, यात्रा का संकेत है।

आपकी संतान के आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो समृद्धि में वृद्धि होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो तबादला या परिवर्तन हो सकता है; स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। परामर्शदाताओं के सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचनतंत्र की मामूली शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए पीली दाल, पीले वस्त्र और शहद दान में दें।

Er. Vijay Shankar Sharma

4575, Sector B-5 & 6, Vasant Kunj

New Delhi-110070

9878463039, 9779763039

vijayvastu39@gmail.com